



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9—जून 15, 2007 (ज्येष्ठ 19, 1929)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9—JUNE 15, 2007 (JYAISTHA 19, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2007

सं. आरएस./3(xi)/2007/40-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में मुख्य संपादक श्रीमती उषा शर्मा को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में प्रधान मुख्य संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./3(xi)/2007/41-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ संपादक श्री जगजीत सिंह को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में मुख्य संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./3(xi)/2007/42-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संपादक श्री राजेन्द्र स्वरूप शर्मा को

22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वरिष्ठ संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./3(xi)/2007/43-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक संपादक श्री भालेन्दु भूषण द्विवेदी को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में संपादक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री भीम सिंह भारद्वाज, जिन्हें पहले अधिसूचना संख्या आर एस/3(xi)/2006/6-कार्मिक दिनांक 12 जनवरी, 2007 द्वारा संपादक के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./3(i)/2007/44-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप सचिव श्री आनन्द कुमार सिंह को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन होगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2007

सं. ए-19011/01/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री के. एम. चन्द्रशेखर, भा.प्र.सं. (केरल:70) को 21 मई, 2007 के पूर्वाह्न से 13 जून, 2007 तक की अवधि के लिए सचिव के रैंक एवं वेतन में मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

सं. आरएस./3(i)/2007/45-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव श्री कुंवर पाल सिंह को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में उप सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री चन्द्र भान राय, जिन्हें पहले अधिसूचना आर एस/ 3(i)/ 2007/26-कार्मिक दिनांक 26 मार्च, 2007 द्वारा तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन होगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

दिनांक 24 मई 2007

सं. ए-19012/01/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, डा. सतीश बलराम अग्निहोत्री, भा.प्र.सं. (उत्तरा:80) को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में 18,400-22,400/-रुपए के वेतनमान में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2007

सं. ए-32014/02/2006-प्रशा.IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग में सहायक श्री स्वराज पाल को विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में दिनांक 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक रु. 6,500-200-10,000/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन है :-

(i) इस तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित निरुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटे और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.जे.सी.ई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक कायम रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति के उक्त दोनों वर्गों में नियमित नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाने पर, उसे ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित अपने-अपने संवर्ग में ड्यूटी ज्वाइन करने का तारीख से सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

सं. आरएस./3(i)/2007/46-कार्मिक--श्री गुरनाम सिंह, जिन्हें पहले अधिसूचना आर एस/3(i)/2006/80-कार्मिक दिनांक 1 नवम्बर, 2006 द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन होगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./3(i)/2007/47-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली सहायक कु. मोनिका बा को 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन होगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

यशवन्त सिंह, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई 2007

सं. 14016/17/2006-यू.टी.एस.-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म तिथि
1	2	3	4

सर्व श्री

1.	रामू लाल मीना	डी-I/504	15.06.57
2.	हरनाथ मीना	डी-I/571	01.07.54
3.	लाला राम मीना	डी-I/572	03.07.56
4.	दाता राम	डी-I/597	04.05.55

1	2	3	4
5.	हरि सिंह	डी-I/608	02.07.53
6.	पुरुषोत्तम दास	डी-I/166	28.10.51
7.	बिमल प्रसाद जैन	डी-I/285	02.10.50
8.	सरदारी लाल	डी-I/289	12.12.49
9.	अशोक कुमार	डी-I/290	10.05.52
10.	रमेश चन्द्र	डी-I/611	16.08.50
11.	अजीत सिंह	डी-I/613	15.07.48
12.	मोहिन्दर सिंह यादव	डी-I/614	24.06.47
13.	भगवान सिंह	डी-I/615	03.03.48
14.	चन्द्र हास	डी-I/628	15.05.49
15.	नरेन्द्र कुमार	डी-I/622	08.09.47

2. सर्वश्री पुरुषोत्तम दास (डी-I/166), विमल प्रसाद जैन (डी-I/285), सरदारी लाल (डी-I/289) और अशोक कुमार (डी-I/290) की दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति सी डब्ल्यू पी सं. 11356-62/2006 के निर्णय के अधीन होगी।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2007

संख्या ए-11016/1/2007-प्र.सु.(प्रशा.II)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों 5 (2) तथा 19(1) के अनुसार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित विशिष्ट विषयों के बारे में एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :-

क्रम संख्या	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष संख्या	विषय	अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष संख्या
1	2	3	4
1.	श्री अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्रशासन) 23360583 इंटरकॉम : 222	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सभी स्थापना और कार्मिक मामले; गृह कार्य मामले; विभागीय रिकार्ड रूम, संसदीय मामलों में समन्वय तथा रोकड़ और लेखा	श्री कंवर राजिन्द्र सिंह, निदेशक (प्रशासन एवं समन्वय) 23362325
2.	श्री पूर्णेन्दुकांत, उपनिदेशक 23360583	1. वार्षिक रिपोर्ट 2. सभी बजट मामले	
3.	श्री श्रवण कुमार, उपनिदेशक (रा.भा.) 23348273 एक्स. 213	विभाग में राजभाषा के संवर्द्धन से संबंधित सभी मामले।	
4.	श्री टी.आर. गिल, अवर सचिव (ई-गवर्नेंस-ए) 23367966	ई-गवर्नेंस में राष्ट्रीय सम्मेलन सहित ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता का संवर्द्धन, ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार, जिला प्रशासन का आधुनिकीकरण, योजनागत बजट का समन्वय।	श्रीमती लेखा कुमार, निदेशक (संगठन) एवं पद्धति/ई-गवर्नेंस) 23363030
5.	श्री पी.टी. भुटिया, अवर सचिव (संगठन एवं पद्धति) 23744391 इंटरकॉम 235	गरीबी कम करने के लिये क्षमता निर्माण संबंधी डी आई एफ डी सहायता प्राप्त कार्यक्रम, सामान्य कार्यालय पद्धति तैयार करना, केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका से संबंधित सभी	

1	2	3	4
		मामले, संगठन एवं पद्धति पहलुओं पर राज्य सरकारों को सलाह, सरकार में गुणवत्ता प्रबंधन, प्रणाली अध्ययन, सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण संबंधी योजनागत स्कीम, रिकार्ड प्रबंधन प्रशिक्षण मोड्यूल संबंधी विश्व बैंक परियोजना सहित रिकार्ड प्रबंधन सूचना के अधिकार के लिये दिशा-निर्देश तैयार करना।	
6.	श्री के. संजयन, अवर सचिव (ई गवर्नेंस-बी) 23367060 इंटरकॉम : 213	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के कार्यान्वयन का समन्वयन एवं सहायता, ई-ऑफिस की मिशन मोड परियोजना विश्व बैंक सहायता, सुशासन के लिये क्षमता निर्माण संबंधी उप-परियोजना, सुशासन के लिये क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कम कामजी कार्यालय अनुप्रयोजनों तथा संबंधित मुद्दों के लिये ई-दिशा उद्यमी समाधान, भारत सरकार के कार्यकरण में सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन, इंटरनेट/वेबसाइट पर सूचना को अद्यतन बनाना, सभी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियाँ।	
7.	श्री पी.एस. चौहान, अवर सचिव (लोक शिकायत) 23367966 इंटरकॉम : 232	नागरिक चार्टर से संबंधित सभी मामले, चार्टर मार्क और लोक सेवा प्रदायगी प्रणाली में उत्कृष्टता संबंधी विश्व बैंक परियोजना।	श्रीमती श्यामलिमा बनर्जी, निदेशक (लोक शिकायत) 23745472
8.	श्री पी.एस. चौहान, अवर सचिव (लोक शिकायत) 23367966 इंटरकॉम : 23	लोक शिकायत निवारण तंत्र (पी जी आर एम) से संबंधित मामले, रेलवे को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई करना।	
9.	श्री आर.एच.एच. ह्यार, अवर सचिव (लोक शिकायत) 23367966 इंटरकॉम : 228	विभिन्न मंत्रालयों की शिकायत निवारण प्रणाली संबंधी सचिवों की समिति गठित करने संबंधी सभी मामले, लोक शिकायतों से संबंधित डी.एफ.आई.डी. परियोजनाएँ, सुविधा काउंटर स्थापित करना और उनका मॉन्योरिंग, पीजीआरएम से संबंधित नीति।	
10.	श्री बद्री प्रसाद, उपनिदेशक (लोक शिकायत) 23361856 इंटरकॉम : 238	लोक शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित मामले, रेलवे सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित व्यक्तिगत लोक शिकायतों को देखना, वार्षिक लोक शिकायत विश्लेषण, दिल्ली को छोड़कर राज्य सरकारों में शासित प्रशासनों से संबंधित सभी व्यक्तिगत शिकायतें।	
11.	श्री आर.सो. हांडा, अवर सचिव 23348276 एक्स. 230	दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग तथा प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधान मंत्री सुधार, भारत सरकार में इंटरनेट कार्यक्रम, प्रशासनिक सुधारों संबंधी पायलट परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन, मिथिल एका दिवस मनाना, जिलाधीशों का राष्ट्रीय सम्मान।	सुश्री मीनाक्षी शर्मा निदेशक (ए.आर.) 23362369

1	2	3	4
12.	श्री आर.सी. हांडा, अवर सचिव 23348276 एक्स. 230	प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा, उत्तरदायी प्रशासन से संबंधित बीस सूत्री कार्यक्रम के मद 20 का कार्यान्वयन, 1986 विभाग की वार्षिक कार्य योजना, आयोगों/पंचायतों/सांविधिक निकायों का अध्ययन, विभाग द्वारा की गई अध्ययन रिपोर्टें।	
13.	श्री ए.के. श्रीवास्तव, उपनिदेशक (डी.एंड डी.) 23360208 इंटरकॉम : 231	सिविल सर्विस न्यूज से संबंधित मामले; विभागीय कार्यों की अनुक्रमणिका; प्रशासनिक नवपरिवर्तनों की सूची, सरकार में प्रबंधन से संबंधित सभी मामले; मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन से संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही; प्रशासनिक वर्ष पुस्तक; प्रेस कतरनें एवं विज्ञप्तियाँ; पुस्तकों एवं आवधिकों का जारी करना/वापस करना/खरीद करना।	श्री आलोक रंजन, उप सचिव (डी.एंड डी.) 23360369
14.	श्री वी.के. मिश्रा, अवर सचिव (डी.एंड डी.) 23744391 इंटरकॉम : 234	सर्वोत्तम प्रणालियों के प्रलेखन एवं प्रसारण से संबंधित मामले: विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगों की रिपोर्टों का डिजिटाइजेशन, गवर्नेंस जानकारी केन्द्र, सुशासन संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन।	
15.	श्री पूर्णेन्दु कांत, उपनिदेशक 23360583	अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एवं सहयोग; कापाम और आई आई ए एस से संबंधित मामले।	श्री सतीश कुमार, उप सचिव (आई ई एंड सी) 23360208

० अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक मई 2007

संख्या-13019/2/2007-अकादमी (डेस्क)--राष्ट्रपति, श्री संजीव चोपड़ा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ.आर.:90) को दिनांक 3.4.2007 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए 15,100-400-18,300/- रु. के वेतनमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में उप-निदेशक (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

चानन राम, अवर सचिव

दिनांक 22 मई 2007

संख्या-13019/3/2007-अकादमी (डेस्क)--राष्ट्रपति, श्रीमती रंजना चोपड़ा भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ.आर.:94) को दिनांक 3.4.2007 (अपराह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए 15,100-400-18300/- रु. के वेतनमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में उप-निदेशक (उप-सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

चानन राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2007

संख्या-ए.32013/1/2007-प्रशा.-I (जी)--वर्ष 2002 की निदेशकों की उपयुक्ता सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप,

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड अधिकारी, श्री भरत प्रसाद को, दिनांक 28.4.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

संख्या-ए.32013/1/2007-प्रशा.-I (जी)--वर्ष 2002 की निदेशकों की उपयुक्ता सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन ग्रेड अधिकारी, श्रीमती रीता माथुर को, दिनांक 7.5.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2007

संख्या-ए.32014/1/2006-प्रशासन-I (जी)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव, श्री पी. दिवाकरन को दिनांक 2.2.2007 के के.से. प्रभाग के का. ज्ञा. संख्या-5/20/2005-के.से. II के अनुसार इस विभाग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 16.3.2007 (पूर्वाह्न)

से 30.6.2007 तक अथवा नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक और अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2007

संख्या-39019/02/2007-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, श्रीमती शशि उवान त्रिपाठी, सचिव, विदेश मंत्रालय को दिनांक 17 मई, 2007 (अपराह) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) सती मोहनदास, अवर सचिव

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2007

संख्या 41/27/07-पें. एंड पी. डब्ल्यू. (सी)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 5(2) और 19(1) के अनुसार और कार्मिक, लोक शिक्कायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 23 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या ए-60011/6/2006-प्रशासन-1(सा.) के अतिक्रमण में कार्मिक, लोक शिक्कायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने निर्दिष्ट किए गए विषयों के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं :-

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी का नाम और पदनाम	दूरभाष संख्या	विषय	अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम/दूरभाष संख्या सहित
1	2	3	4	5
1.	श्री वी.के. वधवा अवर सचिव (पेंशन) (डेस्क 'क')	24623107	पेंशन के सभी पहलुओं से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों के लिए पेंशन योजना शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव; पेंशन अधिनियम और इसके अंतर्गत नियम बनाना।	श्री एम.पी. सिंह निदेशक (पी.पी) दूरभाष : 24624802
2.	श्री ए.के. ओझा, अवर सचिव (पेंशन)	24698708	पेंशन से संबंधित सभी मामलों के मामले।	श्री एम.पी. सिंह, निदेशक (पी.पी) दूरभाष : 24624802
3.	श्री भूपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी (पेंशन) (डेस्क 'एफ')	24623107	अस्थायी/स्थायीवत् कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान; पेंशन से संबंधित सभी पहलु; संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि/अस्थायी भविष्य निधि सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, ई.ओ.पी.	श्री एम.पी. सिंह, निदेशक (पी.पी) दूरभाष : 24624802
4.	श्री राजन सूद, अनुभाग अधिकारी	24635754	महंगाई राहत, पेंशन का सराफाकरण, पेंशन निधि योजना, स्कोवा; पेंशन के भुगतान की विधि	श्री एम.पी. सिंह, निदेशक (पी.पी) दूरभाष : 24624802
5.	श्री अमिताभ द्विवेदी, अवर सचिव (पेंशन)(डेस्क 'डी')	24644847	डेस्क 'बी' और डेस्क 'डी' धामों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	श्री गीता राम, निदेशक (पी.डब्ल्यू.), दूरभाष : 24624752

डेस्क 'डी' :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी संवर्धन।
केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाएं; पेंशन सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के मामलों में शिक्कायतों से संबंधित सभी मामले;

1	2	3	4	5
			डेस्क 'बी' :	
			अर्हक सेवा, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच पेंशन दायित्वों की भागीदारी, पूर्व बर्मा/गोवा/पांडिचेरी के पेंशनभोगियों के सभी पहलुओं से संबंधित मामले।	
6.	श्रीमती गीता नायर, अवर सचिव (पेंशन) (पेंशन) (डेस्क 'ई')	24623107	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत कुटुंब पेंशन, अंशदायी भविष्य निधि के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित मामले।	श्री के.एस. छिब्ब, उप सचिव दूरभाष : 24635979
7.	श्री सुकार सिंह, अवर सचिव (पेंशन) (डेस्क 'सी')	24644847	पेंशनभोगियों की शिकायतें।	श्री के.एस. छिब्ब, उप सचिव दूरभाष : 24635979

सुकार सिंह, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2007

सं. क्यू./पी.ए. I/16/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर शिकागो में भारत के प्रधान कौंसुल श्री अरूण कुमार 30 अप्रैल, 2007 के अप. से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-1 से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 3 मई 2007

सं. 10/पी.ए. II/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर मेदान में भारत के प्रधान कौंसुल श्री एम. एस. मनधैया 30 अप्रैल, 2007 के अप. से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 8 मई 2007

सं. क्यू./पी.ए. I/17/2007--राष्ट्रपति, सुवा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय सिंह का कार्यकाल 07.03.2007 से और आगे तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू./पी.ए. I/18/2007--राष्ट्रपति, असगाबात में भारत के राजदूत श्री आर. पी. कौशिक का कार्यकाल 02.05.2007 से और आगे दो माह की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू./पी.ए. I/19/2007--राष्ट्रपति, रियाध में भारत के राजदूत श्री एम. ओ. एच. फारूक का कार्यकाल 28.09.2007 से और आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 10 मई 2007

सं. क्यू./पी.ए. I/21/2007--राष्ट्रपति, इस समय भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारी को 23 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के पश्चात् ग्रेड सं.
------	----------------	---------------	-------------------------------

1. डॉ. जार्ज जोसेफ (भा.वि.से.) का ग्रेड-III (भा.वि.से.) का ग्रेड-II

2. (भा.वि.से.) के ग्रेड-II में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 23.02.2007 के पूर्वाह्न से (भा.वि.से.) के ग्रेड-III के पद का कार्यभार त्याग दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू./पी.ए. I/23/2007--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV के अधिकारी श्री अनूप सिंह को 30 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. श्री अनूप सिंह की 30.04.2007 (पूर्वाह्न) से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के

दिनांक 15 जुलाई, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/4/84-स्था. (वेतन-1) के अनुसार प्रोफार्मा पदोन्नति के आधार पर की जाती है।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 11 मई 2007

सं. क्यू./पी.ए.1/24/2007--राष्ट्रपति, इस समय भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के निम्नलिखित अधिकारी को 30 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से इसी सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:--

क्रम	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के पश्चात् ग्रेड सं.
------	----------------	---------------	-------------------------------

1. श्री त्रिभुवन अशोक (भा.वि.से.) का ग्रेड-IV (भा.वि.से.) का ग्रेड-III

2. (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 30.04.2007 के पूर्वाह्न से (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV का कार्यभार त्याग दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार संभाल लिया।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 14 मई 2007

सं. क्यू./पी.ए.1/25/2006--राष्ट्रपति, वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूत श्री रणेन्द्र सेन का सेवाकाल 07.08.2007 से सात माह पच्चीस दिन को और अवधि अर्थात् 31.03.2008 तक बढ़ाते हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 24 मई 2007

सं. क्यू./पी.ए.1/26/2006--राष्ट्रपति, ब्रसेल्स में भारत के राजदूत श्री दीपक चटर्जी का कार्यकाल 13.09.2007 से और आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2007

सं. 2007 (फा. सं. ए.-32014/2/2002-प्रशासन 1 क)--व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 18.4.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 32014/2/2006-सी ए एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री भगत सिंह, आशुलिपिक, ग्रेड 'ग' को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में 6,500-10,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 24 अप्रैल, 2007 (पूर्वाह्न)

से 30.06.2007 तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा (के.स.आ.से.) के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति, उन्हें के.स.आ.से. निजी सचिव ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने हेतु अधिकार प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी और सरकार तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय रद्द करने और अधिकारी को उस पद पर जिससे उनको पदोन्नत किया गया था, प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2007

सं. 2007 (फा. सं. ए.-32014/2/2002-प्रशासन 1 क)--व्यय विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 30.4.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 32014/2/2006-सी ए एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री संसार चन्द बिर्दी, (अनुसूचित जाति) आशुलिपिक, ग्रेड 'ग' को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में 6,500-10,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 1 मई, 2007 (पूर्वाह्न) से 30.06.2007 तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा (के.स.आ.से.) के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति, उन्हें के.स.आ.से. के निजी सचिव ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने हेतु अधिकार प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी और सरकार तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय रद्द करने और अधिकारी को उस पद पर जिससे उनको पदोन्नत किया गया था, प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2007

सं. ए.-12011/08-2006-प्रशा.2--व्यय विभाग, (सीएसएस) के दिनांक 8.5.2007 के क. ज्ञा. सं. 32014/3/2006-सीएसएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय संवर्ग की नियमित ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफर श्रीमती रीता रानी को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 1.3.2007 (अपराह्न) से आरम्भ में 30.06.2007 तक के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ए' और 'बी' (सम्मिलित) के ग्रेड में (निजी सचिव के रूप में पदनामित) नियुक्त करते हैं।

2 श्रीमती रीता रानी का स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ए' और 'बी' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित

निबंधन और शर्तों के अधीन होगी :—

(क) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त कर्मचारी को ग्रेड में असीमित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के ग्रेड 'ए' और 'बी' (सम्मिलित) (निजी सचिव) हेतु नियमित नियुक्ति के लिए चयनसूची में नाम शामिल होने अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) तदर्थ नियुक्ति को कभी भी बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए.-12011/13/2006-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.4.2007 के आदेश सं. 5/1/2007-सीएस-1 (डेस्क) (पार्ट) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के (सीएसएस) संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री महावीर सिंह (सीएसएल सं. 5695) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/-रु. के वेतनमान में 11 मई, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री महावीर सिंह की तदर्थ आधार पर उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

- तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने या सीएसएस के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा,
- तदर्थ नियुक्ति को कभी भी बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के एम. ए. सं. 2710/2006, ओ.ए.सं.-2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11.01.2007 के आदेश के भी अधीन होगी।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2007

सं. 2/3/2007-मुद्रा-III--इस विभाग के दिनांक 24 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. 1/2/2000-मुद्रा-I के क्रम में राष्ट्रपति, श्री प्रकाश नारायण, (आईओएफएस) की प्रतिभूति मुद्रणालयों/प्रतिभूति कागज मिल में महाप्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 24 अप्रैल, 2007 से एक वर्ष तक अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष बढ़ाते हैं।

ए. के. अजमानी, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं. ए.-32013/3/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री ए. के. रैना, उप निदेशक (वित्त आयोग प्रभाग) को दिनांक 18 मई, 2007 के पूर्वाह्न से तथा

अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मार्च 2007

सं. पीएफजी (681)/93-प्रशा.I--दिनांक 09.03.2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/1/2007 सीएसआई (डेस्क) के तहत प्रोन्नत होने पर श्री राकेश मोजा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अनुभाग अधिकारी को राष्ट्रपति दिनांक 12.03.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में कम्पनी कार्य मंत्रालय में अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2007

सं. 16/2007 (ए-19011/15/2007-ई-I)- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के पत्र सं. 10/2/2007-इ.ओ. (एसएम.-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, डॉ. सुतनु बेहुरिया, आईएएस (हि.प्र. : 76) को दिनांक 8 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक श्रीमती आशा स्वरूप के स्थान पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 10 मई 2007

सं. 17/2007 (ए-32012/3/2007-ई-I)- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 अप्रैल 2007 के का. ज्ञा. सं. 8/2/2006-सीएस-I (डी) द्वारा वर्ष 2001 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) निदेशक उपयुक्तता सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित उप सचिवों को 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है :—

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	सुश्री शारदा पी. मेश्राम	28 अप्रैल, 2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री नरिन्दर सिंह	30 अप्रैल, 2007 (पूर्वाह्न)

अनुराग सक्सेना, निदेशक

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2007

सं. ए-32015/1/2004-आ.स.(प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में कार्यरत श्रीमति शालिनी भटनागर, कनिष्ठ अन्वेषक को,

वेतनमान 6,500-200-10,500/- रु. में इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर 1 मार्च 2007 से नियमित वेतनभोगी के पद ग्रहण करने तक नियुक्त करते हैं।

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर की गई है, जिसके लिए उक्त कर्मचारी को इस पद पर बने रहने या इन ग्रेड में वरियता मांगने का या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार संबंधित अधिकारी की उक्त तदर्थ नियुक्ति का कोई कारण बताये अथवा सूचना आदि दिये बिना ही समाप्त कर सकती है।

रंजन मुखर्जी, उप निदेशक (प्रशा.-I)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं. 11/2007 (सं. ए-12025/11/2000-स्था.)--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की वरिष्ठ टाइम स्केल अधिकारी श्रीमती प्रमोदिता को दिनांक 18 मई, 2007 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में वस्त्र मंत्रालय में उप-आर्थिक सलाहकार (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ज. प्र. दत्त, अवर सचिव

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2007

सं. पी-34016/1/2004-सीसी-स्थापना--राष्ट्रपति, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत, श्री रवि कपूर, भा.प्र.से.(ए.एम. : 86) को 13.02.2008 तक की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए, दिनांक 17.04.2007 के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) में, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 11 मई 2007

सं. ए-32011/3/2007-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.04.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/2/2006-सीएस-1(डेस्क) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री कुआंरा माझी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में 08.05.2007 के पूर्वाह्न से निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री कुआंरा माझी, सीएसएस ने उक्त तारीख से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2007

सं. ए-32011/6/2007-मा.सं-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के प्रथम श्रेणी अधिकारी और पूर्ति तथा निपटान

महानिदेशालय में अवर सचिव श्री बीर सिंह को 16 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सीएसएस के सेलेक्शन ग्रेड में उर्वरक विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ पदोन्नति 4 अप्रैल, 2007 के डी ओ पी टी के आदेश संख्या 4/2/2006-सीएस-I में निर्धारित शर्त के अधीन होगी।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

शुद्धिपत्र

सं. ए-32013/1/2006-एस.ए.--दिनांक 08.02.2007 की पूर्व की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एस. के. गुप्ता की निदेशक, राष्ट्रीय अन्न संस्था, कानपुर के पद पर नियुक्ति की तारीख को 01.08.2006 की बजाय 09.08.2006 पढ़ा जाए।

हर्ष मालवीय, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 मई 2007

सं. ए-65011/1/2007-पी.-I-सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों (वानिकी) ग्रेड-II, की प्रतिनियुक्ति अवधियों को 6,500-10,500/- रुपये के वेतनमान में, ये अधिकारियों के नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों को समाप्त होंगी, एतद्वारा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को समाप्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है:--

अधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति अवधि की तिथि की समाप्ति	तक बढ़ाया गया
1. श्री राजेश कुमार	28.07.2007	28.07.2008
2. श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव	13.09.2007	13.09.2008

कबीन्द्र जोशी, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2007

सं. ए-11011/1/2005-पी.-I(.)--राष्ट्रपति, श्री डब्ल्यू. भरत सिंह को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ग' के पद पर 1 मई, 2007 पूर्वाह्न से अस्थायी आधार पर अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री डब्ल्यू. भरत सिंह की नियुक्ति अशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय में वाद सं. 3323/2006/52816, दिनांक 06.09.2006 के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

कबीन्द्र जोशी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2007

सं. ए-12025/7/2007-सी एच एस-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. सरित चटर्जी को दिनांक 23.04.2007 से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) (मेडिसिन) के पद पर तैनात करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 मई 2007

सं. ए-12025/129/2004-सी. एच. एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. प्रीति खरबंदा को दिनांक 16.10.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. प्रीति खरबंदा को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. प्रीति खरबंदा दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 23 मई 2007

सं. ए-12025/133/2004-सी. एच. एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. विकास चौहान को 18.10.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. विकास चौहान को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. विकास चौहान दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 मई 2007

सं. ए-32013/1/2007/स्थापना-I--वर्ष 2002 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशकों की उपयुक्तता सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित उप सचिवों का नाम शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री डी. आर. शर्मा 14.05.2007 (पूर्वाह्न)

2. श्री यू. सी. नांगिया 30.04.2007 (पूर्वाह्न)

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2007/स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.02.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/4/2006-सी. एस.-I के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक श्री एस. के. जौहरी को 30.04.2007 के अपराह्न से 30.06.2007 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:--

- (1) तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या उसी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।
- (2) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय कारण बताए बगैर समाप्त किया जा सकता है।

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2007

सं. 2-1/2005-बागवानी-IV--राष्ट्रपति काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोच्चि के श्री वेंकटेश एन. हुब्बली, उप निदेशक (डी) को उसी निदेशालय में निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर 1 मई, 2007 पूर्वाह्न से वेतनमान 12,000-375-16,500/- में 6 महीने की अवधि के लिए अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पर नियुक्त करते हैं।

एस. आर. गोयल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2007

सं. 27-2720/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री वी. मोहनन को अवर सचिव के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 24 मई, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2007

सं. 27-2721/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री अशोक कुमार खन्ना को अवर सचिव के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 1 मई, 2007 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 मई 2007

सं. 27-2722/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री आर. पी. सिंह को अवर सचिव के पद पर

10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 10 मई, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 27-2723/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री एम. सत्य बाबू को अवर सचिव के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 11 मई, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2007

सं. 27-2724/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, सुश्री छवि झा, आईआरएस (1990) को दिनांक 18 मई, 2007 के पूर्वाह्न से 14,300-18,300/- रुपये के वेतनमान में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2007

सं. 6-1/2003-आई.एन.एम.(ए)(पार्ट)--राष्ट्रपति, डा. कृष्णा बिहारी के राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (पुराना नाम राष्ट्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र), गाजियाबाद के अंतर्गत 8,000-275-13,500/- रुपये (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचितवर्गीय) के वेतनमान में सहायक निदेशक (पुराना नाम सहायक सूक्ष्म जीव विज्ञानी) के पद पर तदर्थ प्रोन्नति को 9 महीने अर्थात् 01.03.2007 से 30.11.2007 तक को अवधि के लिए अथवा नियमित व्यवस्था होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

बी. जे. भट्टाचार्य, उप सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मई 2007

सं. 2-2/2005-मात्स्यिकी प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री ए. सेथुमाधवन, अभियांत्रिकी समुद्री इंजीनियर, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई बेस, चेन्नई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2007 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मई 2007

सं. ए-12022/2/2005/स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी और भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक)

श्री डी. पी. राय, दिनांक 31.03.2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार श्री राय ने दिनांक 31.03.2007 (अपराह) से संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2007

सं. ए-32013/1/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री वी. जे. मेनन जो इस समय ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 15 मई 2007 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास विभाग में ही निदेशक नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री ई. जे. जोस जो इस समय ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 01 मई 2007 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास विभाग में ही निदेशक नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मई 2007

सं. ए-20011/1/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति जी, श्री राजेन्द्र कुमार को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) में पंचायती राज मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 26.04.2007 के पूर्वाह्न से या इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निजी सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

के. पी. सरोहा, अवर सचिव

सं. ए-19012/1/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति जी, श्री यू. डी. मेहता को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) में पंचायती राज मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 26.04.2007 के पूर्वाह्न से या इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निजी सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

के. पी. सरोहा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई 2007

सं. पी.एफ./वो.3/ प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री विक्रमाजीत पाण्डेय, केन्द्रीय सचिवालय, राजभाषा सेवा के सहायक निदेशक (राजभाषा) को तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के तौर पर 10,000-325-15,200/-

रुपये के वेतनमान में पदोन्नति होने पर 6 माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो पहले हो, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में 15 मई, 2007 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

बी. बी. मुखर्जी, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2007

सं. 11019/2/2005/स्था. (टीए)-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश संख्या 11016/3/2007-आईईएस दिनांक 28.03.2007 के अनुसरण में श्री बी. बी. शर्मा को 30.04.2007 के दोपहर के पहले से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल काकड़िया, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 मई 2007

सं. पीएफ/4791/एनआईसी/2007-का.व.स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री आशीष अग्रवाल, कर्मचारी कोड सं. 4791 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2006 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

डाक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं. 12-3/2002-एसपीजी--केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की अधिकारी श्रीमती सी. डी. मलिक, जो पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में कार्यरत थीं, ने दिनांक 08.05.2007 के पूर्वाह्न से डाक विभाग के जीसीएस श्रेणी 'क' में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2007

सं. ई.आर.बी-I/2007/2/25--श्री अमिताभ दत्ता, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल भंडार सेवा, दक्षिण मध्य रेलवे को 03.05.2007 के पूर्वाह्न

से 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (रेल भंडार), रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 28 मई 2007

सं. ई.आर.बी-I/2004/6/1--श्री अनिल खटवानी की प्रोबेशन पूरा होने पर 02.04.2006 से अधीक्षक (विधि), रेलवे बोर्ड (वेतनमान: 7,500--12,000/- रु.) के पद पर पुष्टि की जाती है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 29 मई 2007

सं. ई.आर.बी-I/2007/2/28--श्री ए. के. कपूर, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा, उत्तर रेल को 15.05.2007 के पूर्वाह्न से 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (दूरसंचार), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2007

सं. ए-19011/1/2007-स्था.--राष्ट्रपति, श्री रजनीश गुप्ता, आई ए एस (उ.प्र. : 90) को वेतनमान 15,100-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 30.04.2007 (पूर्वाह्न) से आगामी पाँच वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2007

सं. एल एच-21012/2/2006-एस एल--राष्ट्रपति, श्री हरबंस कुमार, निदेशक (क्षेत्रीय) को 30 अप्रैल, 2007 अपराह्न से अगले आदेशों तक 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में उप महानिदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. एल एच-12013/2/2004-एस एल--राष्ट्रपति, श्री बीरेन्द्र यादव को 13 फरवरी, 2007 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यपालक अभियंता (इलैक्ट्रोनिक्स) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2007

सं. ए-32014/2/2004-ई.-II(बी)--कार्मिक और त्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.03.2007 के का. ज्ञा. 5/8/2006-सीएस.-II के अनुसार, राष्ट्रपति, विद्युत मंत्रालय की सीएसएसएस संवर्ग की श्रीमती शारदा शर्मा, आशुलिपिक ग्रेड-सी को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर दिनांक 26.03.2007 (पूर्वाह्न) से 30.06.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के. सी. बेहरा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2007

सं. 15/8/2006-जीबी--आन्ध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953 (1953 का 30) की धारा 66 की उप-धारा तथा तत्कालीन सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. डीडब्ल्यू -VI-4(9) दिनांक 10 मार्च, 1955 के पैरा के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति श्री ओ. पी. खांडा, मुख्य अभियंता, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से उनके अपने प्रभार के अतिरिक्त तुंगभद्रा बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

इन्द्र राज, आयुक्त (परियोजना)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2007

सं. 11/2007, फाइल सं.-1/1/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री शशी पाल, अनुभाग अधिकारी, योजना आयोग को जल संसाधन मंत्रालय में अवर सचिव के ग्रेड में, पूर्णतया तदर्थ आधार पर, दिनांक 30.03.2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं. 8/2007 फाइल संख्या-25/3(14)/2005/स्था.-1--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा पर सं. 2004 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री आलोक पाल कावर्मा को दिनांक 03.05.2007 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु. 8,000-13,500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री आलोक पाल कावर्मा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए पारिवारिकरहित रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2007

सं. ए-12034/1/2006-प्रशासन-1--राष्ट्रपति द्वारा डा. आर. के. वत्स, आई.ए.एस. (प.ब. : 886) को शहरी विकास मंत्रालय में दिनांक 11.04.2007 (पूर्वाह्न) से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष पाँच वर्ष की अवधि अर्थात् 14.10.2009 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18,400-22,400/- रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2007

सं. ए-22012/1/2006-प्रशासन-1--राष्ट्रपति द्वारा डा. हरजीत सिंह आनंद, आई.ए.एस. (हरियाणा : 73) को 08.05.2007 (अपराह्न) से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया जाता है।

सुश्री सुजया कृष्णन, निदेशक (प्रशासन)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd May 2007

No. RS.3(xi)/2007/40-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Usha Sharma, Chief Editor in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Principal Chief Editor on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(xi)/2007/41-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Jagjit Singh, Senior Editor in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Chief Editor on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(xi)/2007/42-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajender Swaroop Sharma, Editor in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Senior Editor on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(xi)/2007/43-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Bhalendu Bhushan Dwivedi, Assistant Editor in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Editor on ad-hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

2. Shri Bhim Singh Bhardwaj, who was earlier appointed to officiate as Editor on ad-hoc basis vide Notification No. RS.3(xi)/2006/6-Perl. dated 12th January, 2007, has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(i)/2007/44-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Anand Kumar Singh, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(i)/2007/45-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Kanwar Pal Singh, Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Secretary on ad-hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

2. Shri Chandra Bhan Rai, who was earlier appointed to officiate as Deputy Secretary on ad-hoc basis vide Notification RS.3(i)/2007/26-Perl. dated 26th March, 2007, has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

2. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(i)/2007/46-Perl.—Shri Gurnam Singh, who was earlier appointed to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis vide Notification No. RS.3(i)/2006/80-Perl. dated 1st November, 2006 has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS.3(i)/2007/47-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Kum. Monica Baa, Senior Legislative/Committee/Executive/ Protocol Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Legislative/Committee/Executive/ Protocol Officer on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 22nd May 2007, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 21st May 2007

No. A-19011/01/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri K. M. Chandrasekhar, IAS (KL : 70) as Officer on Special Duty in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 21st May, 2007 for a period upto 13th June, 2007 in the rank and pay of Secretary.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

The 24th May 2007

No. A-19012/01/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Dr. Satish Balram Agnihotri, IAS (OR : 80) as Joint Secretary in the Cabinet Secretariat in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/- with effect from the forenoon of 22nd May, 2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd May 2007

No. A-32014/02/2006-Adm.IV(LA).—The President is pleased to appoint Shri Swaraj Pal, Assistant in Department of Legal affairs as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the CSS Cadre of the Ministry of Law and Justice [Department of Legal Affairs and Legislative Department] with effect from the forenoon of 22nd May, 2007 until further orders.

2. The ad-hoc promotion/appointment is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointment any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority to the Section Officer's Grade of CSS.
- (ii) Ad-hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) in the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers the date from which the concerned officers join duty in their respective cadre allotted to them by the DOP&T.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, 10001, the 18th May 2007

No. 14016/17/2006-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service, Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
	(S/Shri)		
1.	Ramu Lal Meena	D-I/504	15.06.1957
2.	Harnath Meena	D-I/571	01.07.1954
3.	Lala Ram Meena	D-I/572	03.07.1956
4.	Data Ram	D-I/597	04.05.1955
5.	Hari Singh	D-I/608	02.07.1953
6.	Purushottam Dass	D-I/166	28.10.1951
7.	Bimal Prasad	D-I/285	02.10.1950
8.	Sardari Lal	D-I/289	12.12.1949
9.	Ashok Kumar	D-I/290	10.05.1952
10.	Ramesh Chandra	D-I/611	16.08.1950
11.	Ajit Singh	D-I/613	15.07.1948
12.	Mohinder Singh Badav	D-I/614	24.06.1947
13.	Bhagwan Singh	D-I/615	03.03.1948
14.	Chandar Has	D-I/628	15.05.1949
15.	Narender Kumar	D-I/622	08.09.1947

2. The appointments of S/Shri Purushottam Dass (D-I/166), Bimal Prasad (D-I/285), Sardari Lal (D-I/289) and Ashok Kumar (D-I/290) to the Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 11356-62/2006.

KAJNEESH TINGAL, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi, the 13th March 2007

No. A-11016/1/2007-AR(Ad.-II).—In terms of Sections 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions are hereby designated as Central Public Information Officers and their Appellate Authorities in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Central Public Information Officer, Designation Tele. No.	Subject Matter	Name of Appellate Authority with Designation/Tele. No.
1	2	3	4
1.	Shri Anurag Srivastava Under Secretary (Admn.) 23360583 Intercom : 222	All establishment and personnel matters of DAR & PG; House Keeping jobs; Departmental Record Room, Coordination in Parliamentary matters and Cash & Accounts.	Shri Kanwar Rajinder Singh Director (Admn. & Coord.) 23362325.
2.	Shri Purnendu Kant Deputy Director 23360583 Intercom : 215	1. Annual Report 2. All Budget matters	
3.	Shri Shravan Kumar Deputy Director (OL) 23348273 Ext 213	All matters pertaining to promotion of Official Language in the Department.	
4.	Shri T. R. Gill Under Secretary (E-gov. A) 23367966 Intercom : 227	Promotion of excellence in e-Governance including National Conference in e-Governance, National Awards for e-Governance, Modernization of District Administration, Coordination of Plan Budget.	Smt. Lekha Kumar Director (O&M/E-gov.) 23363030.
5.	Shri P. T. Bhutia Under Secretary (O&M) Tel : 23744391 Intercom : 235	DIFD supported programme on Capacity Building for Poverty Reduction. Formulation of common office procedure, All matters related to Central Secretariat Manual of Office procedure, Advise to State Govt. on O&M aspects, Quality Management in Government, Method Studies Plan scheme on Modernization of Government Offices, Records Management including World Bank Project on Record Management Training Module, Formulation of guidelines for RTI.	
6.	Shri K. Sanjayan Under Secretary (E-gov. B) Tel : 23367060 Intercom : 213	Coordinating and supporting implementation of National e-Governance Plan, Mission Mode Project of e-Office, World Bank Assistance Sub-Project on Capacity Building for Good Governance, e-Disha Enterprise Solution for Less Paper Office applications and related issues in association with NIC, Promotion of IT in the functioning of GOI updation of information on internet/website, all training and capacity building activities.	

1	2	3	4
7.	Shri P. S. Chauhan* Under Secretary (PG) Tel : 23367966 Intercom : 232	All matters related to Citizen's Charter World Bank Project on Charter mark and Excellence in Public Service Delivery System.	Smt. Shyamalima Banerjee Director (PG) Tel : 23745472
8.	Shri P. S. Chauhan Under Secretary (PG) Tel : 23367966 Intercom : 232	Matters related to Public Grievance Redressed Mechanism (PGRM), Handling of individual public grievances pertaining to all Ministries/Departments of Govt. of India.	
9.	Shri RHH Hmar Under Secretary (PG) Tel : 23367966 Intercom : 228	All matters relating to setting up of committee of Secretaries on Grievance Redress System of different ministries DIFD projects pertaining to PG, Setting up of Facilitation Centers and its evaluation Policy relating to PGRM.	
10.	Shri Badri Prasad Deputy Director (PG) Tel : 23361856 Intercom : 238	Matters related to Public Grievance Redressed Mechanism Handling of individual public grievances pertaining to all Ministries/Departments of Govt. of India including Railways, Annual PG Analysis all individual grievances pertaining to State Government/UTs.	
11.	Shri R. C. Handa* Under Secretary Tel : 23348276 Ext : 230	Second Administrative Reforms Commission, Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration, Internship Programme in Govt. of India, Monitoring and Implementation of Pilot Projects on Administrative Reforms, Observance of Civil Service Day, National Conference of District Collectors.	Ms. Meenakshi Sharma Director (AR) Tel : 23362369
12.	Shri R. C. Handa Under Secretary Tel : 23348276 Ext : 230	Review of Administrative Law, Implementation of Point 20 of Twenty Point Programme, 1986 relating to Responsive Administration, Annual Action Plan of the Department; Study of Commissions/Tribunals/Statutory Bodies, Study Reports done by the Departments.	
13.	Shri A. K. Srivastava Deputy Secretary (D&D) Tel : 23360208 Intercom : 231	Matters related to Civil Service News, Indexing of departmental works; Inventory of administrative innovations; All matters related to Management in Government; Follow-up action on Chief Minister's Conference; Administrative Year Book; Press Clippings and releases; Issue/Returns; Purchase of books and Periodicals.	Shri Alok Ranjan Deputy Secretary (D & D) Tel : 23360369
14.	Shri V. K. Mishra Under Secretary (D&D) Tel : 23744391 Intercom : 234	Matters related to Documentation and Dissemination of best practices; Digitization of reports of various Administrative Reforms Commission, Governance Knowledge Centre, Regional Conferences on Good Governance.	

1	2	3	4
15.	Shri Purnendu Kant Deputy Director Tel : 23360583 Intercom : 215	International Exchange & Cooperation; matters related to CAPAM & IIAS.	Shri Satish Kumar Deputy Secretary (IE&C) Tel : 2360208

*Looking after the subject temporarily.

ANURAG SRIVASTAVA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110067, the 21st May 2007

No. 13019/2/2007-ACADEMY(DESK).—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Chopra, IAS (OR : 90) as Deputy Director (Director Level) in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. 03.04.2007 (afternoon) for a period of five years.

CHANAN RAM, Under Secy.

The 22nd May 2007

No. 13019/3/2007-ACADEMY(DESK).—The President is pleased to appoint Smt. Ranjana Chopra, IAS (OR : 94) as Deputy Director (Deputy Secretary level) in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. 03.04.2007 (afternoon) for a period of four years.

CHANAN RAM, Under Secy.

New Delhi, the 23rd May 2007

No. A-32013/1/2007-Ad.I(G).—Consequent upon inclusion of his name in the Suitability List of Directors for the year 2002, the President is pleased to appoint Shri Bharat Prasad, a Selection Grade Officer of CSS, as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 28th April, 2007, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/1/2007-Ad.I(G).—Consequent upon inclusion of her name in the Suitability List of Directors for the year 2002, the President is pleased to appoint Smt. Rita Mathur, a Selection Grade Officer of CSS, as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 7th May, 2007, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 25th May 2007

No. A-32014/1/2006-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri P. Divakaran PPS of CSSS in the Department of Personnel & Training to the grade of Senior Principal Private Secretary of CSSS purely on adhoc basis, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in this Department w.e.f. 16.03.2007 (F.N.) to 30.06.2007 or till the post is filled up on regular basis and until further orders, in terms of CS Division's OM No. 5/20/2005-CS.II dated 2nd February, 2007.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 23rd May 2007

No. 39019/02/2007-Estt.(B).—The President is pleased to appoint Smt. Shashi Uban Tripathi, Secretary, Ministry of External Affairs as Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 17th May, 2007.

SATI MOHANDAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

New Delhi, the 28th May 2007

No. 41/27/07-P&PW(C).—In terms of Sections 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's Notification No. A-60011/6/2005-Ad.I (G), dated the 23rd May, 2006, the competent authority in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare hereby designate the following officers as Central Public Information Officer and Appellate Authority in respect of the subject matter specified against their names :—

Sl. No.	Name and Designation of the Central Public Information Officer	Tele. No.	Subject Matter	Name of Appellate Authority with Designation/Tele. No.
1.	Shri V. K. Wadhwa, Under Secretary (Pension) (Desk 'A')	24623107	Matters relating to all aspects of Pension; proposals regarding introduction of pension scheme for PSUs/Autonomous Bodies; Pension Act and Rules framed thereunder.	Shri M. P. Singh, Director (PP) Tele : 24624802
2.	Shri A. K. Ojha, Under Secretary (Pension)	24698708	All legal matters pertaining to Pension	Shri M. P. Singh, Director (PP) Tele : 24624802
3.	Shri Bhupal Singh, Section Officer (Pension) (Desk 'F')	24623107	All aspects relating to Retirement/Death Gratuity; Pension for temporary consti- permanent employees; GPF/CPF Retirement benefits to officers of Constitutional/ Statutory Authorities; EOP.	Shri M. P. Singh, Director (PP) Tele : 24624802
4.	Shri Rajan Sood, Section Officer (Pension) (Desk 'G')	24635754	All matters relating Dearness Relief; Com- mutation of Pension; Pension Fund Plan; SCOVA; mode of payment of pension	Shri M. P. Singh, Director (PP) Tele : 24624802
5.	Shri Amitabh Dwivedi, Under Secretary (Pension) (Desk 'D')	24644847	<u>CPIO for both Desk 'B' & Desk 'D'</u> <u>Desk 'D' :</u> All matters relating to permanent absorption of Central Government Employees in PSUs/ Autonomous Bodies; Medical Facilities to Central Government Pensioners; Grievances in non-retirement benefit matters; <u>Desk 'B' :</u> Matters relating to all aspects of qualifying service; Sharing of pensionary liability between Central and State Government; Ex- Burma/Goa/Pondicherry pensioners.	Shri Geeta Ram, Director (PW) Tele : 24624752
6.	Smt. Geeta Nair, Under Secretary (Pension) (Desk 'E')	2463107	Matters relating to family pension under CCS (Pension) Rules 1972, ex-gratia pay- ment to CPF retirees and their families	Shri K. S. Chibb, Deputy Secretary Tele : 24635979
7.	Shri Sukar Singh, Under Secretary (Pension) (Desk 'C')	24644847	Pensioners' Grievances.	Shri K. S. Chibb, Deputy Secretary Tele : 24635979

SUKAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st May 2007

No. Q/PA-1/16/2007.—On attaining the age of superannuation, Shri Arun Kumar, Consul General of India, Chicago, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of April 30, 2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 3rd May 2007

No. 10/PA-II/2007.—On attaining the age of superannuation, Shri M. S. Mandhaiya, Consul General of India, Medan, retired from the Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30th April, 2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 8th May 2007

No. Q/PA-1/17/2007.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Ajay Singh, High Commissioner of India, Suva, for a further period of three months with effect from March 7, 2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/18/2007.—The President is pleased to extend the tenure of Shri R. P. Kaushik, Ambassador of India, Ashgabat, for a further period of two months with effect from May 2, 2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/19/2007.—The President is pleased to extend the tenure of Shri M. O. H. Farook, Ambassador of India, Riyadh, for a further period of one year with effect from 28.09.2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 10th May 2007

No. Q/PA-I/21/2007.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from forenoon of 23rd February, 2007.

Name of the officer, Present Grade & Grade after Promotion
Dr. George Joseph, Grade-III of IFS—Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 23.02.2007 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/23/2007.—The President is pleased to appoint Shri Anup Singh, an officer in Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from forenoon of 30th April, 2007.

2. The appointment of Shri Anup Singh to Grade-III of the IFS, w.e.f. 30.04.2007 (F/N) is on the basis of a Proforma promotion in terms of O.M. No. 8/4/84-Estt. (Pay-I) dated the 15th July, 1985 of the Ministry of Personnel & Training.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 11th May 2007

No. Q/PA-I/24/2007.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from forenoon of 30th April, 2007 :—

Name of the officer, Present Grade & Grade after Promotion
Shri Tribhuvan Ashok, Grade-IV of IFS—Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge in Grade-IV of IFS on the forenoon of 30.04.2007 and assumed charge of his post in Grade-III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 14th May 2007

No. Q/PA-1/25/2007.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Ranendra Sen, Ambassador of India, Washington, for a further period of seven months and twenty-five days with effect from 07.08.2007, i.e. upto 31.03.2008.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

The 24th May 2007

No. Q/PA-1/26/2007.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Dipak Chatterjee, Ambassador of India, Brussels, for a further period of one year with effect from 13.09.2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st May 2007

No. of 2007 (F. No. A-32014/2/2002-Ad-IA).—In pursuance of the Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O.M. No. A-32014/2/2006-CAS dated 18.04.2007, the President is pleased to appoint Shri Bhagat Singh, Steno Grade 'C' of this Department as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) on ad-hoc basis with effect from forenoon of 24th April, 2007 and upto 30.06.2007 in the pay scale of 6,500–10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Revenue.

2. Ad-hoc promotion of the above mentioned official will not confer on him any claim for regular appointment in the Grade of Private Secretary of the CSSS and the service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and the Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert the official to the post from which he was promoted.

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

The 7th May 2007

No. of 2007 (F. No. A-32014/2/2002-Ad-1A).—In pursuance of the Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O.M. No. A-32014/2/2006-CAS dated 30.04.2007, the President is pleased to appoint Shri Sansar Chand Birdi (SC), Steno Grade 'C' of this Department as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) on ad-hoc basis with effect from forenoon of 1st May, 2007 and upto 30.06.2007 in the pay scale of Rs. 6,500–10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Revenue.

2. Ad-hoc promotion of the above mentioned official will not confer on him any claim for regular appointment in the Grade of Private Secretary of the CSSS and the service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and the Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert the official to the post from which he was promoted.

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 15th May 2007

No. A-12011/08/2007-Admn.II.—In pursuance of the Department of Expenditure, (CAS) O.M. No. A-32014/3/2007-CAS dated 08.05.2007, the President is pleased to appoint Smt. Rita Rani, regular Steno Grade 'C' of the cadre of Ministry of Home Affairs as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the pay scale of Rs. 6,500–10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 01.05.2007 (AN) initially for the period upto 30.06.2007.

2. The ad-hoc appointment of Smt Rita Rani, as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions :—

- i. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointy any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (PS) of CSSS;

- ii. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-12011/3 2006-Admn.II.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2007-CS.I (Deslk (PT) dated 26.04.2007, the President is pleased to appoint Shri Mahabir Singh, (CSL No. 5695) Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Defence as Under Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-with effect from the forenoon of 11th May 2007 and until further orders.

2. The aforesaid appointment of Shri Mahabir Singh on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority Grade-I (Under Secretary) of CSS;
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;
- (iii) The appointment shall further be subject to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 22nd May 2007

No. 2/3/2007-Cy-III.—In continuation of this Department's Notification No. 1/2/2000-Cy.I dated 24th April, 2003, the President is pleased to extend the deputation term of Shri Prakash Narayan, (IOFS) as General Manager in the Security Presses Security Paper Mill by one year from 24th April, 2007 or until further orders.

A. K. AJMANI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 25th May 2007

No. A-32013 3 2006-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Raina, Deputy Director (FCD) to the post of Joint Director in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of the 18th May, 2007 and until further order.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th March 2007

No. PFG (681) 93-Ad.I.—Consequent upon his promotion vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/

2007-CA.I (Desk) dated 09.03.2007, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Moza, a regular Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Company Affairs on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 12.03.2007 until further orders.

N. K. VIG, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)**

New Delhi, the 9th May 2007

No. 16/2007 (A-19011/15/2007-E-I).—In pursuant to the Department of Personnel & Training's, communication No. 10/02/2007 EO(SM-I) dated 19th April, 2007, the President is pleased to appoint Dr. Sutanu Behuria, IAS (HP : 76) as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 8th May, 2007 vice Smt. Asha Swarup, until further orders.

ANURAG SAXENA, Dir.

The 10th May 2007

No. 17/2007 (A-32012/3/2007-E-I).—Consequent upon their inclusion in the Central Secretariat Service (CSS) Directors' Suitability List for the year 2001 vide Department of Personnel & Training's, O.M. No. 8/02/2006 CS-I (D) dated 28th April, 2007, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries as Directors in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Joining
1.	Ms. Sharda P. Meshram	28th April, 2007 (FN)
2.	Shri Narinder Singh	30th April, 2007 (FN)

ANURAG SAXENA, Dir.

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 21st May 2007

No. A-32015/2/2004-Ec.Ad.(Admn.I).—The President is pleased to appoint Smt. Shalini Bhatnagar, Junior Investigator of the Office of the Economic Adviser as Economic Officer in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in this office on ad-hoc basis w.e.f. the 1st March, 2007 to till the regular incumbent joints this office.

The appointment, ordered above, is made on purely ad-hoc basis and do not confer any right upon the office concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate

the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the office concerned.

RANJAN MUKHERJEE, Dy. Dir. (Admn.I)

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 22nd May 2007

No. 11/2007 (No.A-12025/1/2000-Estt.).—The President is pleased to appoint Smt. Promodita, Senior Time Scale Officer of the Indian Economic Service as Deputy Economic Adviser (Junior Administrative Grade) in the Ministry of Textiles in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 18th May, 2007.

J. P. DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 17th April 2007

No. P-34016/1/2004-CC-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ravi Capoor, IAS (AM : 86), presently working as Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Executive Director, Petroleum Conservation Research Association (PCRA) under the Ministry with effect from the forenoon of 17.04.2007, for the balance period of his central deputation upto 13.02.2008.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 11th May 2007

No. A-32011/3/2007-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 8/2/2006-CS.I (D) dated 28-04-2007, the President is pleased to appoint Shri Kuanra Majhi, CSS as Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 08.05.2007.

2. Shri Kuanra Majhi, CSS has assumed the charge of the office of Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the aforesaid date.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

**MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)**

New Delhi, the 16th April 2007

No. A-32011/6/2007-HR.II.—The President is pleased to appoint Shri Beer Singh a Grade-I Officer of CSS and working as Under Secretary in the Directorate General of Supply and Disposals to the selection Grade of CSS as Deputy Secretary in the Department of Fertilizers on adhoc basis w.e.f. the forenoon of 16th April, 2007 until further orders. The adhoc promotion is subject to the condition laid down in the DoPT Order No. 4/2/2006-CS.I dated 4th April, 2007.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 25th May 2007

CORRIGENDUM

No. A-32013/1/2006-SA.—In partial Modification to earlier Notification dated 8.2.2007, the date of appointment in respect of Shri S. K. Gupta to the post of Director, N.S.I., Kanpur may be read as 9.8.2006 instead of 1.8.2006.

HARSH MALVIYA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 4th May 2007

No. A-65011/10/2007-P.I.(.).—With the approval of the competent authority, the deputation periods of the following Technical Officer (Forestry) Gr.-II in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/-, which will expire on the dates mentioned against the names of officers, are hereby extended for a period of one year beyond the expiry of their deputation period :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of expiry of Deputation period	Extended upto
1.	Shri Rajesh Kumar	28.07.2007	28.07.2008
2.	Shri Bipul Kumar Srivastava	13.09.2007	13.09.2008

KABINDRA JOSHI, Under Secy.

The 9th May 2007

No. A-11011/1/2005-P.I.(.).—The President is pleased to appoint Shri W. Bharat Singh to the post of Scientist 'C' in the Ministry of Environment and Forests in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on temporary basis with effect from the forenoon of 1st May, 2007 until further orders.

2. The appointment of Shri W. Bharat Singh is subject to the final outcome of case No. 3323/2006/52816 dated 06.09.2006 in the Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

KABINDRA JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd May 2007

No. A-12025/7/2007-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sarit Chatterjee to the post of Specialist Grade II (Jr. Scale) (Medicine) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of the 23.04.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 21st May 2007

No. A-12025/129/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Preeti Kharbanda to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 16.10.2006 until further orders. Dr. Preeti Kharbanda is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. Dr. Preeti Kharbanda shall be on probation for two years.

(Secy.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 23rd May 2007

No. A-12025/133/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vikas Chauhan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 18.10.2006 until further orders. Dr. Vikas Chauhan is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi. Dr. Vikas Chauhan shall be on probation for two years.

(Secy.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 15th May 2007

No. A-32013/1/2006-Estt.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Eligibility List of Directors of CSS for the year 2002, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries of CSS in the Department of Health & Family Welfare as Director w.e.f. the date shown against each :

1. Shri D. R. Sharma, 14.05.2007 (F.N.)
2. Shri U. C. Nangia, 30.04.2007 (F.N.)

P R. A. NAIR, Under Secy.

No. A-32014/1/2006-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 7/4/2006-CS-I, dated 01.02.2007, the President is pleased to appoint Shri S. K. Johri, Assistant of CSS, as Section Officer in this Ministry, purely on ad-hoc basis w.e.f. the afternoon of 30.04.2007 for the period upto 30.06.2007 or till the regular Section Officers become available, whichever is earlier.

The ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (c) The ad-hoc promotion shall not confer on the any right to continue in the grade indefinitely or

for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim in the same grade.

- (d) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

P. R. A. NAIR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 4th May 2007

No. 2-1/2005-Hort.IV.—The President is pleased to appoint Shri Venkatesh N. Hubballi, Deputy Director (D) in the Directorate of Cashewnut & Cocoa Development, Cochin as Director in the Directorate in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 1st May, 2007 for a period of six months or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

S. R. GOYAL, Under Secy.

New Delhi, the 5th May 2007

No. 27-2720/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri V. Mohanan, as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 24th April, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 9th May 2007

No. 27-2721/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Khanna, as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 1st May, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 14th May 2007

No. 27-2722/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Singh, as Under Secretary on adhoc basis in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 10th May, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 27-2723/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri M. Sathya Babu, as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 11th May, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 18th May 2007

No. 27-2724/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Ms. Chhavi Jha, IRAS (1990) as Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 14,300—18,300/- with effect from the forenoon of 18th May, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 23rd May 2007

No. 6-1/2003-INM(A)(pt).—The President is pleased to extend the ad-hoc promotion of Dr. Krishna Bihari to the post of Asstt. Director (old name Asstt. Microbiologist) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) under the National Centre of Organic Farming (old name National Bio-fertilizer Development Centre), Ghaziabad for a period of 9 months w.e.f. 01.03.2007 to 30.11.2007 or till regular arrangement is made, whichever is earlier.

B. J. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 25th May 2007

No. 2-2/2005-Fy.Admn.—The President is pleased to allow Shri A. Sethumadhavan Mechanical Marine Engineer, Chennai Base of Fishery Survey of India, Chennai to retire from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.04.2007 (A.N.).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 8th May 2007

No. A-12022/2/2005-Estt.I.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri D. P. Roy, CSS, Joint Secretary (personal) in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development retired from Government Service with effect from 31.03.2007 (AN). Accordingly, Shri Roy relinquished the charge of the post of Joint Secretary w.e.f. 31.03.2007 (AN).

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 15th May 2007

No. A-32013/2/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri V. J. Menon, CSS, presently working as Deputy Secretary in the Department of Rural Development as Director in the same Department with effect from the forenoon of 15th May, 2007.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

No. A-32013/1/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri E. J. Jos, CSS, presently working as Deputy

Secretary in the Department of Rural Development as Director in the same Department with effect from the forenoon of 1st May, 2007.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 8th May 2007

No. A-22011/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar, in Steno Grade 'A&B' (Merged)/PS of CSSS on (ad-hoc) basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Panchayati Raj with effect from the forenoon of 26.04.2007 till the post is filled on regular basis, or till further orders whichever is earlier.

K. P. SAROHA, Under Secy.

No. A-19012/2/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri U. D. Mehta, in Steno Grade 'A&B' (Merged)/PS of CSSS on (ad-hoc) basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Panchayati Raj with effect from the forenoon of 26.04.2007 till the post is filled on regular basis, or till further orders whichever is earlier.

K. P. SAROHA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 18th May 2007

No. PF/V/35-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Vikram Jeet Pandey, Central Secretariat Official Language Service, Assistant Director (Official Language) on promotion as Deputy Director (Official Language) on ad-hoc basis for a period of 6 months or until further orders, whichever is earlier in the Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from 15th May 2007 (Afternoon) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 14th May 2007

No. 11019/2/2005-Estt.(TA).—In pursuance of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Order No. 11016/3/2007-IES dated 28.03.2007, the President is pleased to appoint Shri B. B. Sharma as Deputy Director in the Ministry of Tribal Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 30.04.2007.

ANIL KAKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 23rd May 2007

No. PF/4791/NIC/2007-P&E-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Ashish Aggarwal, Emp.

Code No. 4791, from the post of Scientist "C", NIC-HQ, New Delhi with effect from the afternoon of 30.11.2006 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E.I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, the 25th May 2007

No. 12-3/2002 SPG.—Smt. C. D. Malik, an officer of Central Secretariat Official Language Service, who was earlier working as Deputy Director (Official Language) in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, has assumed the charge of the post of Joint Director (Official Language) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in GCS Group 'A' in the Department of Posts on the forenoon of 08.05.2007.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Genl. (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th May 2007

No. ERB-I/2007/2/25.—Shri Amitabha Datta, HAG/IRSS, South Central Railway, is appointed as Additional Member (RS), Railway Board, in Grade Rs. 24,050-26,000/- with effect from the forenoon of 03.05.2007.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

The 28th May 2007

No. ERB-I/2004/6/1.—Shri Anil Khatwani, on completion of probation, is confirmed in the post of Superintendent (Legal), Railway Board (scale : Rs. 7,500-12,000/-) with effect from the 02.04.2006.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

The 29th May 2007

No. ERB-I/2007/2/28.—Shri A. K. Kapoor, HAG/IRSS, Northern Railway, is appointed as Additional Member (Telecom), Railway Board, in Grade Rs. 24,050-26,000/- with effect from the forenoon of 15.05.2007.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS (DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110001, the 18th May 2007

No. A-19011/1/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajneesh Gupta, IAS (UP : 90), as Director in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. 30.04.2007 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

New Delhi, the 18th May 2007

No. LH-21012/2/2006-SL.—The President is pleased to promote Shri Harbans Kumar, Director (Regional) to the post of Deputy Director General in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from afternoon of 30th April, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. LH-12013/2/2004-SL.—The President is pleased to appoint Shri Birendra Yadav to the post of Assistant Executive Engineer (Electronics) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from forenoon of 13th February, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 16th April 2007

No. A-32014/2/2004-E.II(B).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM. No. 5/8/2007-CS.II dated 01.03.2007, the President is pleased to appoint Smt. Sharda Sharma, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Power as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Road Transport & Highways on ad-hoc basis w.e.f. 26.03.2007 (FN) for the period upto 30.06.2007 or until further orders whichever is earlier.

K. C. BEHERA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd May 2007

No. 15/8/2006-GB.—In pursuance of Sub-section 4 of Section 66 of the Andhra State Act, 1953 (30 of 1953) and paragraph 1 of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power No. DW VI-4(9) dated the 10th March, 1955, as amended from time to time, the President is pleased to appoint Shri O. P. Khanda, Chief Engineer, Krishna and Godavari Basin Organisation, Central Water Commission, Hyderabad as Chairman, Tungabhadra Board to his own duties, with immediate effect until further orders.

INDRA RAJ, Commissioner (Projects)

New Delhi, the 23rd May 2007

No. 11/2007 F. No. 1/1/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Shashi Pal, Section Officers of CSS Cadre of the Planning Commission as Under Secretary in the Ministry of Water Resources, purely on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 30.03.2007, until further orders.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 25th May 2007

No. 8/2007 F. No. 25/3(14)/2005-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2004 the President is pleased to appoint Shri Alok Paul Kalsi to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000-13,500/- in the Central Water Commission with effect from 03.05.2007 (FN).

2. Shri Alok Paul Kalsi will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th April 2007

No. A-12034/1/2006-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. R. K. Vats, IAS, (WB : 86) as Joint Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Urban Development in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/- with effect from 11.04.2007 (FN) for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. upto 14.10.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

U. VISWANADHAM, Under Secy.

New Delhi, the 15th May 2007

No. A-22012/1/94-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Harjit Singh Anand, IAS (HY : 73) as Secretary in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation w.e.f. 08.05.2007 (AN).

SUJAYA KRISHNAN, Dir. (Admn.)